



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या ४९ पटना, बुधवार, २४ अग्रहायण १९३२ (श०)
१५ दिसम्बर २०१० (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-१—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	भाग-५—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	भाग-७—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।
भाग-१-ख—मैट्रिकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-१ और २, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	भाग-८—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-१-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	भाग-९—विज्ञापन
भाग-२—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	भाग-९-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-३—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	भाग-९-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।
भाग-४—बिहार अधिनियम	पूरक
	पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर 2010

सं० स्टे०/झा०/वि०-173/2010-13575—माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा एल०पी०ए० सं० 881/2010 इन्द्रजीत कुमार आर्य-बनाम-राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 9 सितम्बर 2010 को पारित आदेश के आलोक में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के आदेश सं० 13452, दिनांक 9 दिसम्बर 2010 के द्वारा लिये गये निर्णय (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-72 की उप-धारा(2) के अन्तर्गत कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अंतिम रूप से आवंटित श्री राजू चौधरी, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग का विशेष परिस्थिति में निम्न रूप में अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण किया जाता है।

क्र० सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	जन्म-तिथि	अंतिम आवंटन से संबंधित केन्द्र सरकार के आदेश संख्या एवं तिथि	केन्द्र सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित राज्य	विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरित राज्य
1	श्री राजू चौधरी, सहायक अभियन्ता	05-12-1962	आदेश सं०-76(झा०)/06, दिनांक-13-09-2006	झारखंड	बिहार

2. यह स्थानान्तरण, श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य एवं श्री राजू चौधरी, दोनों सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग द्वारा पारस्परिक स्थानान्तरण किये जाने हेतु दिये गये संयुक्त अभ्यावेदन के आलोक में पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक 4608, दिनांक 21 जून 2008 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार के पत्रांक 12531, दिनांक 6 नवम्बर 2009 के द्वारा दी गई सहमति से निर्गत गृह (विशेष) विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-10375, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० सं० 881/2010 में रद्द कर दिये जाने के कारण विशेष परिस्थिति में किया गया है। इस स्थानान्तरण में यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा तथा गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 277, दिनांक 3 फरवरी 2009 के आलोक में वरीयता का निर्धारण होगा।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा एल०पी०ए० सं० 881/2010 में पारित आदेश से गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना सं० 10375, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 रद्द किए जाने के कारण श्री इन्द्रजीत कुमार आर्य, सहायक अभियन्ता का कैडर आवंटन पूर्ववत् बिहार राज्य रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजीव रंजन सिन्हा, उप-सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2010

सं० 1/स्था०-35/87 अंश-1-8344—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12746(S), दिनांक 25 अगस्त 2010 के आलोक में श्री विनय कुमार, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियन्ता का योगदान दिनांक 26 अगस्त 2010 के पूर्वाह्न से तकनीकी परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में कार्यपालक अभियन्ता के रिक्त पद पर स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विश्व मोहन मिश्र, संयुक्त सचिव।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचनाएं

6 दिसम्बर 2010

सं० प्र०२/विद्युत धारा-42/2003-29—श्री कमलदेव सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी जिनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 7/स्था०-1-9-09/2005/2476, दिनांक 17 मार्च 2010 एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं० 424, दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153 एवं उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन पेसू क्षेत्र पटना के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है को अगले आदेश तक पेसू क्षेत्र पटना के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

सं० प्र०२/विद्युत धारा-42/2003-30—श्री राज किशोर सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय जिनकी सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं० 7/स्था०-1-9-09/2005/2476, दिनांक 17 मार्च 2010 एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिसूचना सं० 424, दिनांक 1 सितम्बर 2010 द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-153 एवं उक्त अधिनियम की धारा-135-141 में विनिर्दिष्ट अपराधों की सुनवाई हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन मगध क्षेत्र गया के लिए गठित विशेष न्यायालय में पदस्थापन हेतु सौंपी गई है को अगले आदेश तक मगध क्षेत्र गया के लिए गठित विशेष न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शम्भुनाथ मिश्र, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 39—571+120-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर 2010

सं० प्र०२/आयोग सदस्य चयन-17/03 (खंड)-28—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा 85 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार एतद् द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (Bihar Electricity Regulatory Commission) के अध्यक्ष एवं सदस्य को अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयनित करने के लिए निम्नलिखित चयन समिति का गठन करती है :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 2. (क) न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्री धर्मपाल सिन्हा | — | अध्यक्ष |
| (ख) बिहार सरकार के मुख्य सचिव | — | सदस्य |
| (ग) अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली | — | सदस्य |
| 3. सरकार के प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, चयन समिति के संयोजक होंगे। | | |
| 4. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। | | |

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शम्भुनाथ मिश्र, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>